

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक-11.03.2023

श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली, रामपुर पर पहुंचकर सुनी गयी फरियादियों की समस्याएं-

आज दिनांक 11-03-2023 को जनपद के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा उनके समाधान हेतु त्वरित कार्यवाही की गयी।

इसी क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा0 संसार सिंह द्वारा थाना कोतवाली, रामपुर पर पहुंचकर थाना समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री गजेन्द्र पाल त्यागी आदि मौजूद रहे तथा क्षेत्राधिकारी मिलक, रामपुर श्री रवि खोखर द्वारा थाना शहजादनगर पर पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना शहजादनगर श्री शरद पंवार आदि मौजूद रहे।

थाना सैफनी -एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 11.03.2023 को थाना सैफनी, रामपुर पुलिस द्वारा गस्त के दौरान अभि0 राजकुमार पुत्र हरिदास नि0 ग्राम बलुपुरा थाना सैफनी जनपद रामपुर को एक अद्द नाजायज तमन्चा 315 बोर के साथ ग्राम बलुपुरा से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में थाना सैफनी पर मु0अ0सं0-30/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री सर्वेन्द्र कुमार

हे0का0 375 सुभाषचन्द्र।

थाना टाण्डा -10 ली0 नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभि0 गिरफ्तार-

दिनांक 11.03.2023 को थाना टांडा, रामपुर पुलिस द्वारा रुपचन्द्र पुत्र गंगाराम नि0ग्राम ज्योहरा थाना मिलक जनपद रामपुर को 10 ली0 नाजायज शराबखाम के साथ गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में थाना टांडा पर मु0अ0सं0-70/23 धारा 60(1) Ex. Act पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना बिलासपुर -वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 11-03-2023 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त राकेश पुत्र ओमनाथ नि0 ग्राम सुभाषनगर डिबडिबा थाना बिलासपुर जनपद रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।